

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय – हिंदी

कक्षा – नौ

Assignment अप्रैल – मई 2018 - 19

प्रश्न 1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

परोपकार करते हुए कष्ट सहना ही पड़ता है, परंतु इसमें भी परोपकारी को आत्मसंतोष और विशेष सुख मिलता है। माँ कष्ट न उठाए तो शिशु का कल्याण नहीं होगा। वृक्ष पुराने पत्तों का मोह न त्यागें तो नवपल्लवों के दर्शन असंभव हैं। पक्षी कष्ट सहकर भी अपने शिशुओं के लिए आहार इकट्ठा न करें तो उनके बच्चे बचेंगे कैसे? माता – पिता, वृक्ष, पक्षियों का कष्ट, कष्ट नहीं। कारण, वे तो परहित के लिए पीड़ित हैं, अतः उस पीड़ा में भी वे आनंद मानते हैं। परोपकार करने से आत्मा प्रसन्न होती है। परोपकारी दूसरों की सहानुभूति का पात्र बनता है। समाज के दीन – हीन, पीड़ित वर्ग को जीवन का अवसर देकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता, कटुता और वैमनस्य दूर कर शांतिदूत बनता है। धर्म के मार्ग पर समाज को अग्रसर कर 'मुक्तिदाता' कहलाता है।

क) कष्ट होने पर भी परोपकार क्यों किया जाता है ?

ख) नए पत्ते कब दिखाई देते हैं ?

ग) परोपकारी 'शांतिदूत' कब बन जाता है ?

घ) परोपकार, परोपकारी व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन लाता है?

प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों का वर्ण –विच्छेद कीजिए-

आँखें, सभ्यता, संसर्ग, आकर्षित, संतुलन, तरंग, घृणा, नक्षत्र, सर्वत्र।

प्रश्न 3. अनुस्वार एवं अनुनासिक का उचित प्रयोग कर शब्द दोबारा लिखें -

हसना, गूजना, लबोदर, सभलना, दाए, कविताए, मुह, चाद।

प्रश्न 4. सही स्थान पर अनुस्वार एवं अनुनासिक का उचित प्रयोग कीजिए-

चट्टिका, अगूर, अतंगत, मँहगाई, सभंव, खूखार, गदंयाश।

प्रश्न 5 . 'र' का सही रूप बनाकर शुद्ध शब्द लिखें -

सूरय, विकरम, निरजीव, दुरगम, करांती, परशासक, टरेन, दरशन ।

प्रश्न 6 .निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थानों पर नुक्ता का प्रयोग करके शब्द फिर से लिखें ।

जिंदगी, तूफान, फरेबी, वजीर, रोज, जोरदार, फर्ज, जुल्फ, जिल्लत, जमीन ।

प्रश्न 7.दिए गए वाक्यों में सही विराम चिह्न लगाइए -

- क) हमीद बहुत ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और उदार है
- ख) पंडित नेहरू ने कहा ये हमारे आधुनिक तीर्थ हैं
- ग) प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी सभी को पढनी चाहिए
- घ) मैं रात दिन केवल पढाई के बारे में ही सोचता हूँ
- ड) वाह-वाह, यह क्या तो कमाल हो गया

प्रश्न 8.निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- क) संभ्रांत महिला और बुढ़िया के दुःख में क्या अंतर था ?
- ख) एवरेस्ट पर पहुँचकर बचेंद्रीपाल ने क्या किया ?
- ग) रैदासजी ने दूसरे पद में भगवान की किन - किन विशेषताओं का वर्णन किया है?
- घ) लेखिका ने गिल्लू की समाधि सोनजुही की लता के नीचे ही क्यों बनाई ?
- ड) गिल्लू अन्य पशु-पक्षियों से किस रूप में भिन्न था?
- च) लाचार बुढ़िया को किन - किन अपशब्दों का सामना करना पड़ रहा था?

प्रश्न 9.'पारिवारिक मूल्यों का विघटन' विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए-

